

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जनपद गोरखपुर ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं में जनपद गोरखपुर के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है –

### 1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण:-

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन जिला पुलिस का कार्य निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा। पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सदभाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है। जनपद गोरखपुर में जनपद पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है।

जनपद में 06 अपर पुलिस अधीक्षक, 01 सहायक पुलिस अधीक्षक, 10 पुलिस उपाधीक्षक व 30 निरीक्षक/थानाध्यक्षों के पद सृजित हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कोतवाली, कैण्ट, गोरखनाथ हैं। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कौंगंज, चौरीचौरा कार्य करते हैं, अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बासगांव, खजनी, गोला कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, जनपद में घटित अपराधों एंव अपराधियों के सम्बंध में समीक्षा कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत करते हैं तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, जनपद में यातायात व्यवस्था सम्बंधी कार्यों का सम्पादन करते हैं।

#### 1.1. जनपद में पुलिस का संगठन –

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी— क्षेत्र नाम थाना

**1.अपर पुलिस अधीक्षक, नगर— 1.क्षेत्राधिकारी कोतवाली—1. थाना कोतवाली**

**2. थाना राजघाट 3. थाना तिवारीपुर**

**2. क्षेत्राधिकारी कैण्ट— 4. थाना कैण्ट 5. थाना खोराबार 6. रामगढ़ताल**

**3.क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ—7. थाना गोरखनाथ 8. थाना शाहपुर**

**2.अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी:-**4. क्षेत्राधिकारी कै0गंज— 9.थाना कै0गंज  
10. थाना पीपीगंज 11. थाना सहजनवा 12. चिलुआताल 13. थाना गीडा  
5.क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा—14. थाना चौरीचौरा 15. थाना झगहा 16. थाना पिपराइच  
17. थाना गुलरिहा

**3.अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी—** 6.क्षेत्राधिकारी बासगांव— 18. थाना बेलीपार  
19. थाना गगहा 20 थाना बासगांव

**7.क्षेत्राधिकारी खजनी—** 21. थाना खजनी 22 थाना सिकरीगंज 23. थाना  
हरपुरबुदहट

**8.क्षेत्राधिकारी गोला—** 24. थाना गोला 25. थाना बडहलगंज 26 .थाना उरुवा .27  
बेलघाट

**9.क्षेत्राधिकारी कार्यालय—** पुलिस कार्यालय समस्त शाखा, भवन, महिला थाना,  
कोरोना

**4. पुलिस अधीक्षक लाइन गोरखपुर—** लाइन,

10. पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान— जनपद में अभिसूचना विभाग वरिष्ठ पुलिस  
अधीक्षक के निर्देशन में कार्य करता हैं जनपद में स्थापित अभिसूचना शाखा का  
पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया जाता है तथा इसका मुख्य कार्य  
सम्बन्धित सूचनाये सकंलित कराना।

**1.2 जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी—**  
क्र.स. ईकाई का नाम पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक, पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी

1. वायरलेस शाखा— अपर राज्य रेडियो अधिकारी गोरखपुर।
2. स्थानीय अभिसूचना— ईकाई पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान वरिष्ठ पुलिस  
अधीक्षक, गोरखपुर।
3. फायर सर्विस मुख्य अग्निशमन अधिकारी— मुख्य अग्निशमन अधिकारी
4. नगर नियंत्रण कक्ष — पुलिस अधीक्षक नगर
5. यातायात पुलिस—क्षेत्राधिकारी यातायात, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात,  
गोरखपुर।
6. वी0आई0पी0— पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर
7. एस0आई0एस0शाखा— अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध, गोरखपुर।
8. पुलिस लाइन्स— क्षेत्राधिकारी लाईन्स, पुलिस अधीक्षक लाइन गोरखपुर।
9. भवन— क्षेत्राधिकारी श्री गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा कार्यालय वरिष्ठ पुलिस  
अधीक्षक, गोरखपुर
- 10.मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पिछडावर्ग आयोग, अल्पसंख्यक  
आयोग, एससी / एसटी आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग— अपर पुलिस  
अधीक्षक श्री गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा गोरखपुर।
- 11.फील्ड यूनिट— अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, गोरखपुर।

12. पत्र व्यवहार शाखा— क्षेत्राधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कार्यालय गोरखपुर।
13. आंकिक शाखा— क्षेत्राधिकारी कार्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर।
14. विशेष जांच प्रकोष्ठ— अपर पुलिस अधीक्षक अपराध गोरखपुर।
15. महिला सहायता प्रकोष्ठ— क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध गोरखपुर
16. डी०सी०आर०बी०— अपर पुलिस अधीक्षक अपराध गोरखपुर।
17. न्यायालय प्रकरण— अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर।
18. सम्मन सेल— क्षेत्राधिकारी कार्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा गोरखपुर।
19. जनसूचना सेल/पुलिस कार्यालय—क्षेत्राधिकारी यातायात/अपर पुलिस अधीक्षक श्री गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा गोरखपुर।
20. रानी लक्ष्मीबाई सम्मान प्रकोष्ठ— अपर पुलिस अधीक्षक अपराध गोरखपुर।
21. परिवार परामर्श कार्यालय— क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध गोरखपुर।
22. आकिंक शाखा— अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर।
23. साइबर सैल, अपराध शाखा, सर्विलांस शाखा, — अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, गोरखपुर।
24. व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ—पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर।
25. चुनाव, लो०सभा/विधान सभा प्रबन्ध— अपर पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर।
26. डायल 112— पुलिस अधीक्षक, अपराध गोरखपुर।
27. पुलिस लाइन—सहायत पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाइन, पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर।
28. सीसीटीएनएस, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर।
29. आईजीआरएस— पुलिस अधीक्षक उत्तरी, गोरखपुर।
30. पासपोर्ट, नोडल भर्ती — पुलिस अधीक्षक, अपराध गोरखपुर।

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है, कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लायें।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्यः— पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं।—

### 2.1 पुलिस अधिनियम, धारा के अन्तर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य—

आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है, जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।

17 विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो, तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।

22 पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।

23 प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करें, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगायें तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।

25 लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेंट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।

30 लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।

30क उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव को रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।

31 सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।

34 किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहँचाने, मार्ग पर गन्दगी व

कूड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर, किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें।

34 के उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।

47 ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व ।

## 2.2 पुलिस रेगुलेशन—

प्रस्तर 12 से 16 पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संब्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विर्निदिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है। पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।

18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।

24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।

40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में

सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।

43 से 50 थानाध्यक्ष थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सर्वान्तर व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफतीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म न0 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।

51 थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।

55 हेड मोहर्रिंग हेड मोहर्रिंग के कर्तव्य— रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। हिन्दी रोकड़ बही पुलिस फार्म न0 224 प्रपत्र लिखना, यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।

61 से 64 बीट आरक्षी कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी डयूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।

65 से 69 सशस्त्र पुलिस सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफतारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।

79 से 83 घुड़सवार घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है। 89 से 96 चौकीदार ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

### **2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता:- अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्यः-**

36 पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।

41 बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ—1. संज्ञेय अपराध की दशा में। 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण। 3. उदघोषित अपराधी। 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा। 6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा। 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराधी।

42 नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।

47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।

48 गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।

49 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

50 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। 51 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।

52 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अक्रामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।

53 पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।

54 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।

56 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेंट के समक्ष प्रस्तुत करना।

57 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।

58 बिना वारण्ट गिरफ्तारारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेंट को देना।

60 अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति । 100 बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे ।

102 ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो ।

129 उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को, पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति ।

130 ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग ।

131 जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति ।

132 धारा 129, 130, 131 के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण ।

149 प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा ।

150 संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना ।

151 उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार ।

152 लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार ।

153 खोटे बॉट मापों का निरीक्षण अधिग्रहण ।

154 संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी । इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी । भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है ।

155 असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेंट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

156 संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति ।

160 अन्वेषण के अनतर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति ।

161 पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति ।

165 अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो । तलाशी एवं जप्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा ।

166 अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है ।

167 जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति ।

169 साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना ।

170 जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेंट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना ।

172 अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना ।

173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेंट को रिपोर्ट भेजना ।

174 आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना ।

175 धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को समन करने की शक्ति ।

176 पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेंट द्वारा की जायेगी ।

#### **2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देशः—**

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं ।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पटटिका धारण की जानी चाहिए । गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये ।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी । गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी ।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी ।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा । 5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है ।
5. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा ।

6. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
9. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
10. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

**2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्वः—** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

### **2.5.1 कर्तव्यः—**

#### **2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधीः—**

1. संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिराती हेतु अपहरण, रोड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिह्नित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-तॉछ आख्या तैयार करना।

#### **2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी—**

- 2.5.1.3** 1. सक्रिय एवं वांदित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्टीशीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
2. फरार अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

#### **2.5.1.4 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण—**

- 2.5.1.5** 1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक
5. अभिसूचना एकत्रीकरण।

### 2.5.1.6 विशेष अपराधों के संबंध में—

**2.5.1.7** 1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।

**2.5.1.8** 2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।

**2.5.1.9** 3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैगस्टर एक्ट के केसों को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0 केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

**2.5.1.10** य—क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। र—फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना। ल—क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह मे एक बार अर्दली रुम करना।

**2.5.1.5** अभियोजन न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार कोर्ट मोहर्रिंग की

मासिक बैठक तथा सेशन टांयल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

### 2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकारः— 2.5—उपरोक्तानुसार

**2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी** — पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक—252—84 दिनांक: 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

**2.5.2.2. वार्षिक मन्तव्य—** शासनादेश संख्या: 1460छ:—पु—1—99—5199 के अनुसार वार्षिक

मन्तव्य का अंकन करना।

**2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी:**— अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर पत्रावली खुलवाने एवं दण्ड का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक प्रभारी का ही होगा।

**2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्यः—**

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय—समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा—निर्देशन प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

### 3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तरः—

3.1 अनुसंधान विवेचना क्र०सं० कार्यवाही कार्य स्तर अवधि—

1 प्र०सू०रि० का पंजीकरण 154 द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इतिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इतिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा अविलम्ब संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इतिला डाक द्वारा दी जा सकती है।

2 साक्षियों का परीक्षण 161 द०प्र०सं० के अनुसार यथाशीघ्र

3 अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण द०प्र०सं० के अनुसार यथाशीघ्र

4 पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।

5. यथाशीघ्र साक्ष्य का संकलन द०प्र०सं० के अनुसार कार्यवाही

6 नक्शा नजरी तैयार करना द०प्र०सं० के अनुसार निरीक्षण के समय

7 अभियुक्तों की गिरफतारी द०प्र०सं० के अनुसार

8 संस्थीकृति का लिखा जाना

9 पुलिस न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना

10 तलाशी

11 निरूद्धि

12 अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना

13 आरोप पत्र का दाखिल करना।

### 3.2 नियन्त्रण कक्षः—

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्टोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है, जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्यों की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय अपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है।

जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

क्र.स. नियन्त्रण कक्ष टेलीफोन नं० कार्य—

1 जिला नियन्त्रण कक्ष —9454417470 जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।

2. नगर नियन्त्रण कक्ष , 9454403527 नगर नियन्त्रण कक्ष शहर के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।

### जनपद नियन्त्रण कक्ष –

जनपद के देहात क्षेत्र के थानें/चौकियाँ, उनकी मोबाइलें, फायरस्टेषन तथा देहात क्षेत्र के उच्चाधिकारियों के कार्यालय एवं आवास पर अधिष्ठापित आर0टी0 से जनपद नियन्त्रण कक्ष ग्रिड में उपस्थित रहते हैं। इन सभी का आपस में जनपद नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से संचार सम्पर्क बना रहता है। देहात क्षेत्र में घटित होने वाली किसी भी आपराधिक घटना/दुर्घटना की सूचना सम्बन्धित थाना/चौकी या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने पर उसे स्थानीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है तथा स्वविवेक/निर्देषानुसार जनपद नियन्त्रण कक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायी जाती है। गम्भीर अपराध की सूचनायें डीजीपी कन्ट्रोल को भी सीयूजी के माध्यम से नोट करायी जाती हैं।

### नगर नियन्त्रण कक्ष –

जनपद के नगर क्षेत्र के थानें/चौकियाँ, उनकी मोबाइलें तथा नगर क्षेत्र के उच्चाधिकारियों के कार्यालय एवं आवास पर अधिष्ठापित आर0टी0 सेट नगर नियन्त्रण कक्ष ग्रिड में उपस्थित रहते हैं। इन सभी का आपस में नगर नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से संचार सम्पर्क बना रहता है। नगर क्षेत्र में घटित होने वाली किसी भी आपराधिक घटना/दुर्घटना की सूचना सम्बन्धित थाना/चौकी या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने पर उसे स्थानीय उच्चाधि कारियों को प्रेषित किया जाता है तथा स्वविवेक/निर्देषानुसार नगर नियन्त्रण कक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायी जाती है। गम्भीर अपराध की सूचनायें डीजीपी कन्ट्रोल को भी सीयूजी के माध्यम से नोट करायी जाती हैं।

3-जनपद नियन्त्रण कक्ष एवं नगर नियन्त्रण कक्ष के अधीन मोबाइल गाड़ियाँ संचालित नहीं होती हैं। शहर/देहात में मोबाइल गाड़ियाँ यूपी 100 सेवा के अधीन संचालित होती है। जिनका नियन्त्रण यूपी 100 के अधीन है (पी0आर0वी0 वाहनों का विवरण संलग्न है थानों पर नियुक्त वाहन सीसीआर/डीसीआर के सम्पर्क में रहते हैं जिनका विवरण थानावार संलग्न है।

नियंत्रण कक्ष का पुलिस अधीक्षक, यातायात, निरीक्षक यातायात एवं सभी उपनिरीक्षक यातायात से सम्बन्ध रहता है। इस नियंत्रण कक्ष से नगर क्षेत्र की टैंफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नियंत्रित रहती है। इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती है।

### 3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

### 3.3.1. थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र.स. कार्य किसके द्वारा कार्यवाही होगी कार्यवाही की समयावधि—

1. थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना थानाध्यक्ष दिवसाधिकारी उपस्थित कां० कलर्क द्वारा तत्काल
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना दिवसाधिकारी उपस्थित कां० कलर्क द्वारा अविलंब
3. प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना उपस्थित कां० कलर्क द्वारा अविलंब
4. जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना थाना प्रभारी द्वारा 1 दिवस
5. जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना जाँच अधिकारी द्वारा 5 दिवस में
6. थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना थानाध्यक्ष द्वारा 1 दिवस
7. जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना। थानाध्यक्ष द्वारा अविलंब
8. जाँच रिपोर्ट का रखरखाव सम्बन्धित कां० कलर्क द्वारा 01 वर्ष तक।

### 3.3.2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र०सं० कार्य किसके द्वारा कार्यवाही होगी कार्यवाही की समयावधि—

- 1 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना सम्बन्धित लिपिक द्वारा अविलम्ब।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना निमित्त राजपत्रित अधिकारी / क्षेत्राधिकारी मुख्यालय द्वारा 1 दिवस
3. सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा 1 दिवस
4. प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना सम्बन्धित लिपिक द्वारा अविलम्ब
5. सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 2 दिवस
6. क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा अविलम्ब,

7. सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना। थानाध्यक्ष द्वारा 2 दिवस
8. जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना। जाँच अधिकारी द्वारा 8 दिवस में सामान्यतया
9. थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना। थानाध्यक्ष द्वारा अविलम्ब
10. सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा अविलम्ब
11. जाँच रिपोर्ट का रखरखाव क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां0 कलर्क द्वारा 02 वर्ष तक

### **3.3.3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया—**

क्र0सं0 कार्य किसके द्वारा कार्यवाही होगी कार्यवाही की समयावधि—

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 दिवस 2. प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व संबंधित को जांच हेतु प्रेषित करना सम्बन्धित लिपिक द्वारा अविलम्ब 3. सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष द्वारा 07 दिवस में सामान्यतया 4. क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष कार्यालय के कां0 कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष कार्यालय के कां0 कलर्क द्वारा अविलम्ब 5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 दिवस 7 जाँच रिपोर्ट का रख रखाव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां0 कलर्क द्वारा 02 वर्ष तक

### **3.3.4 जनपद गोरखपुर में अग्निशमन नियमनः—** जनपद गोरखपुर में फायर सर्विस का संचालन निम्न प्रकार किया जाता है।

3.3.4.1. जनपद में संचालित फायर स्टेषनों की संख्या एंव स्थान तथा इन फायर स्टेषनों का कार्यक्षेत्रः—

#### **संचालित फायर स्टेशनों की संख्या:-03**

- (1) गोलघर फायर स्टेषन का कार्यक्षेत्रः— तहसील सदर, चौरीचौरा, कैम्पियरगंज
- (2) गीडा / सहजनवा फायर स्टेषन का कार्यक्षेत्रः— तहसील सहजनवा, खजनी
- (3) अग्निशमन केन्द्र परसा, गोला का कार्यक्षेत्रः— तहसील गोला, बासगांव

जनपद में संचालित फायर स्टेषन से सम्बन्धित राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारीगण का नाम,पद, मोबाइल एंव सीयूजी नम्बरः—

सम्पूर्ण जनपद गोरखपुरः— श्री डी०के० सिंह—मुख्य अग्निषमन अधिकारी, मो०न० 9454418341

फायर स्टेषन गोलघर—श्री रमा शंकर सिंह—प्रभारी अग्निषमन अधिकारी मो०न०—9454418789

जनपद में संचालित फायर स्टेषन पर उपलब्ध गाडियाँ एंव फायर स्टेषन पर संचालित टेलीफोननम्बर—

फायर स्टेषन गोलघर—एमएफई—०४, फोम टैन्डर—०२, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म—०१, वाटर ब्राउजर—०२, वाटरमिस्ट—०३, बोलोरोकैम्पर—०३

फायर स्टेषन गीडा / सहजनवा— एमएफई—०३, वाटरलिस्ट—०१, बोलोरोकैम्पर—०१

फायर स्टेषन गोलघर—९४५४४१८७९०

फायर स्टेषन गीडा / सहजनवा—९४५४४१८७९१

फायर स्टेषन परसा / गोला—९४५४४१८७९४

**जनपद में संचालित फायर स्टेशनों के द्वारा अग्निकाण्ड आदि आपदा के सम्बन्ध में कार्ययोजना:-**

जनपद गोरखपुर के संचालित समस्त फायर स्टेशनों पर अग्निषमन वाहन, फायर सर्विस कर्मी एंव अन्य जीव रक्षा उपकरण स्थापित है। आकस्मिक परिस्थितियों में अग्निषमन केन्द्र के कंट्रोलरूम अथवा प्रभारी अग्निषमन अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों पर अग्निकाण्ड व आपदा के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने पर अग्निषमन की यूनिट मय मषीनो व सहवृति उपकरणों के साथ घटनास्थल पर तत्काल प्रस्थान करती है तथा अग्निकाण्ड एंव आपदा के समय जनमानस का भरपूर सहयोग करती है।

**3.3.5 जनपद गोरखपुर में यातायात नियमः—** गोरखपुर महानगर में यातायात नियमों का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, गोरखपुर द्वारा किया जाता है।

**3.3.5.1 गोरखपुर के नगर क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश व संचालन के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आदेशः—** जनपद गोरखपुर की यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस अधिनियम १८६१ की

धारा ३१ में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहनों के आवागमन हेतु निम्नानुसार आदेश किया गया हैः—

अ—षहर में निम्न ०६ स्थानों से डगगामार वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित किया गया हैः—

१—कुषीनगर की तरफ से आने वाले वाहन—बाबा ढाबा माडापार।

२—देवरिया की तरफ से आने वाहन—सूबा बाजार, खोराबार।

3—महराजगंज की तरफ से आने वाला वाहन—झुगिया से मेडिकल के बीच ।

4—सोनौली की तरफ से आने वाला वाहन—बरगदवा चौराहा ।

5—बड़हलगंज की तरफ से आने वाला वाहन—नौसड से बाघागाडा के बीच में ।

6—खलीलाबाद से आने वाला वाहन—नौसड से कालेसर रोड पर । ।

ब—भारी वाहनों पर प्रतिबन्धः—भारी यात्री वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के व्यवसायिक भारी वाहनों पर प्रवेष प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबन्धित होगा:—

1—महानगर क्षेत्र में जनपद बस्ती एंव संतकबीर नगर की तरफ से आने वाला वाहन कालेसर ट्रक वे पर खड़ा करेगे ।

2—जनपद वाराणसी, मऊ, बड़हलगंज की तरफ से आने वाला भारी वाहन को बाघागाडा ट्रक ले वे पर खड़ा करेगे ।

3—जनपद देवरिया की तरफ से आने वाला वाहन देवरिया बाईपास पर खड़ा करेगे ।

4—जनपद कुषीनगर से आने वाला वाहन जगदीषपुर तिराहे पर खड़ा करेगे ।

5—जनपद महाराजगंज की तरफ से आने वाला वाहन को गुलरिया से पहले चौकी भटहट के पास खड़ा करेगे ।

6—कच्चे फल, सब्जी आदि के भारी वाहन नौ एण्ट्री के समय दिन में 12 से 14 बजे के बीच बाघागाडा से होते हुये टीपीनगर महेवा मण्डी जायेगे तथा मण्डी से वापस होकर इसी अवधि में टीपीनगर होते हुये शहर बाहर जायेगें ।

**2—20 टन से अधिक भारी व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश 24 घण्टे पूर्णतया वर्जित है:—**

1—फरेन्दा की तरफ से आने वाला भारी वाहन महसरापुल से पहले महुआतर से मरहरी होते हुये भटहट की तरफ डायर्वर्ट होगा ।

2—गोरखनाथ मंदिर की तरफ से महेसरा पुल की ओर आने वाला वाहन बरगदवा से खंजाची—मेडिकल की ओर जायेगा ।

3—पिपराइच की तरफ से आने वाला वाहन पादरी बाजार से मेडिकल रोड की तरफ डायर्वर्ट होगा ।

4—कच्चे माल वाहक वाहन समय 12.00 बजे से 14.00 बजे से नौसड से मण्डी तथा मण्डी से नौसड से होते हुये बाहर जायेगें ।

स—रोडवेज / प्राईवेट बसों पर प्रतिबन्धः—

स्कूली बसों को छोड़ कर रोडवेज / प्राईवेट बसों का प्रवेष प्रातः06 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा ।

1—जनपद देवरिया की तरफ से आने वाली बस खोराबार बाईपास से तारामण्डल अमरउजाला छात्रसंघ चौराहा होते हुये गन्तव्य को जायेगी ।

2—कुषी नगर की तरफ से आने वाली बस कुडाघाट तिराहा मौहददीपुर होते हुये गन्तव्य को जायेगी ।

3—वाराणसी आजमगढ मऊ की तरफ से आने वाली बस नौसड टीपीनगर होते हुये गन्तव्य को जायेगी।

4—संतकबीर नगर की तरफ से आने वाली बस नौसड टीपीनगर पैटलेगंज को होते हुये गन्तव्य को जायेगी।

5—महाराजगंज की तरफ से आने वाली बस बरगदवा मौहददीपुर से होती हुई गन्तव्य को जायेगी।

द—पीकप/लोड वाहन का शहर में प्रातः 08 बजे से रात्रि 20.00 बजे तक प्रवेष गोलघर क्षेत्र में प्रतिबन्धित रहेगा

ए—नगर क्षेत्र के बाहर नोएण्ट्री के समय बाहरी वाहनों के लिये पार्किंग की गयी है कोई भी वाहन सड़क के किनारे खड़ा नहीं किया जायेगा।

य—नगर क्षेत्र परमिट आटो रिक्षा का रुट निर्धारण किया गया है जिसको रुट न01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 से चिन्हित किया गया है। वाहनों के आवागमन हेतु निर्धारित रुट से ही आवागमन होगा जिसके लिये स्थान चिन्हित किये गये हैं।

रुट न0 1—बरगदवा, गोरखनाथ से धर्मषाला तक आयेंगे तथा वापस जायेंगे।

रुट न0 2— धर्मषाला चौराहा के उत्तर तरफ रेलवे पुलिस के नीचे मछली मण्डी से मेडिकल कालेज जायेंगे तथा वापस आयेंगे।

रुट न0 3— धर्मषाला चौराहा के उत्तर तरफ रेलवे पुल के नीचे मछली मण्डी से असुरन चौक, पादरी बाजार होते हुए पिपराइच जायेंगे।

रुट न0 4— धर्मषाला शनिदेव मन्दिर से धर्मषाला, टीपीनगर से रुस्तमपुर अम्बेडकर चौराहा तमकुही होते हुए जीएम सिटीमाल कार्मल स्कूल होते हुए यातायात कार्यालय से शनिदेव मन्दिर जायेंगे।

रुट न0 5— सीएस0 चौराहे से मोहददीपुर कूडाघाट नन्दानगर जगदीषपुर सोनबरसा जायेंगे तथा वापस आयेंगे।

रुट न0 6— सीएस0 चौराहा से मोहददीपुर कूडाघाट इंजीनियरिंग कालेज की ओर जाएंगे तथा वापस आयेंगे।

रुट न0 7— अम्बेडकर चौराहे से छात्रसंघ, पैडलेगंज, मोहददीपुर कूडाघाट, इंजीनियरिंग कालेज की ओर जाएंगे तथा वापस आयेंगे।

रुट न0 8— अम्बेडकर चौराहे से सब्जी मण्डी से कैन्ट चौराहा रुस्तमपुर टीपीनगर जायेंगे और वास आयेंगे।

रुट न0 9— शास्त्री चौराहे से बेतियाहाता अलहददापुर टीपीनगर नौसड तक जायेंगे और वापस आयेंगे।

र—नगर क्षेत्र के समस्त स्कूलों व कालिजों के मुख्य द्वार से समस्त वाहन 100 मीटर दूरी पर खड़े किये जायेंगे।

ल—रोडवेज बसे सड़क पर खड़ा करके सवारी नहीं भरेंगी तथा ना ही सड़क पर खड़ी होगी। डिपो के अन्दर से सवारी भरकर गन्तव्य को जायेगी।

जनपद के नगर क्षेत्र में रोड पर अत्यधिक दबाव व भीड़ बढ़ने के कारण  
शहर में यातायात के सुचारू आवागमन हेतु एकल दिशा मार्ग के  
अन्तर्गत वनवे व्यवस्था लागू की गयी है—

- 1—कार्मल रोड तिराहे पर
  - 2—गोलघर तिराहे से विजय चौक की तरफ
  - 3—सिविल लाइन क्षेत्र में आरटीओ तिराहे की तरफ
  - 4—यातायात कार्यालय तिराहे से गोरखनाथ मन्दिर की तरफ
  - 5—अग्रसेन तिराहे से गॉधी गली की तरफ
  - 6—रेजीडेन्सी होटल की तरफ से रिजनल स्पोर्ट की तरफ
  - 7—कैण्ट तिराहे से बेतीहाता चौराहे की तरफ
  - 8—रोडवेज तिराहे से यूनिवर्सिटी की तरफ
- जनपद में स्थायी एंव अस्थायी रूप से बने बसरटैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड, टैम्पू स्टैण्ड
- 1—टैक्सी स्टैण्ड जीप, मैटाडोर, टैम्पू, टैक्सी आदि—नार्मल तिराहे के पास नार्मल स्कूल के दक्षिणगेट तक
  - 2—जेलरोड टैक्सीस्टैण्ड—जेल रोडपर सैट एन्थोनी स्कूल के पीछे
  - 3—धर्मषाला टैक्सीस्टैण्ड—गोरखनाथ ओवरब्रीज रोड पर एसडीफोन्स कार्यालय के बगल में
  - 4—सौनोली रोड पर प्राईवेट बसरटैण्ड —लच्छीपुर पैट्रोलपम्प के पास
  - 5—मौहददीपुर टैक्सीस्टैण्ड—राजकीय उद्यान पार्क के पास
  - 6—कैण्ट चौराहे से दीवानी कचहरी गेट के पूर्व तक
  - 7—पुलिस लाईन दो पहिया—चार पहिया वाहन— सीओ कैण्ट आफिस के उत्तर पुलिस लाईन क सामने रोड के दोनो तरफ
  - 8—लालडिगी पार्क के पास दो पहिया वाहन

**वाहन चालको द्वारा यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग के द्वारा निर्गत अधिसूचना के आधार पर किये जाने वाले शमन शुल्क की कार्यवाही का विवरण:—**

पुलिस विभाग के पदधारी, जो शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि
			प्रथम अपराध की दशा में द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में

1	2	3	4	5
1. नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी 2.यातायात पुलिस निरीक्षक / उपनिरीक्षक एंव मुख्य आरक्षी 3.नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एंव उपनिरीक्षक	मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 122,126 के साथ पठित धारा 177 .	यातायात सम्बन्धी अपराध 1—पार्किंग नियमों का उल्लंघन	रु0—500	रु0—1500
	मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम 15(7).	मांग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाणपत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र पस्तुत करने में विफल हाने पर टिप्पणी:-डिजीलॉकर में इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में दस्तावेज स्वीकार किये जाएंग।	रु0—500	रु0—1500
	मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 47	12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर	रु0—500	रु0—1500
	धारा 184क,ख,घ,ड.,च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना	धारा 184 क,ख,ड.,च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना	रु0—500	रु0—1500
	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 177	अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर	रु0—500	रु0—1500
	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 123 के साथ पठित धारा 177	यात्रियों से सम्बन्धित अपराध:-फुट बोर्ड पर यात्रियों के खड़े होने पर	रु0—500	रु0—1500

	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 72(तेरह) के साथ पठित धारा 177	वाणिज्यिक यानों से सम्बन्धित अपराधः—अनुज्ञेय किराये से अधिक किराया लेने पर	रु0—500	रु0—1500
	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम 28 के साथ पठित मोटरयान अधिग की धारा 177	परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर	रु0—500	रु0—1500
1. नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी 2. यातायात पुलिस निरीक्षक / उपनिरीक्षक एंव मुख्य आरक्षी 3. नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एंव उपनिरीक्षक	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम 166क के साथ पठित धारा 177	मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने । मोटरयान अधिनियम या तद्वीन जारी नियमावली, विनियमावली या अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं तथा जिनके लिये विनिर्दिष्ट जुर्माना विहित नहीं किया गया है।	रु0—500	रु0—1500
1. नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी 2. यातायात पुलिस निरीक्षक / उपनिरीक्षक एंव मुख्य आरक्षी 3. नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एंव उपनिरीक्षक	179(1)	प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधि सम्मत निदेश का उल्लंघन करना या ऐसी किसी कृत्य का निर्वहन करने में व्यवधान डालना, जिसका निर्वहन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण अपेक्षित हों या सशक्त हों	रु0—2000 / —	
—तदैव	179(2)	इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित सूचना देने से अस्वीकार करना या मिथ्था सूचना देना जिसे वह सत्य न मानता हो	रु0—2000 / —	

	180	जो कोई, चाहे वह मोटर यान का स्वामी हो या उसका भार साधक व्यक्ति हो, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का समाधान नहीं करता है, से यान चलवाता है या उसकी अनुज्ञा देता है।	रु0—5000 /—	
—तदैव	181	धारा 3 या 4 के उपबन्धों का उल्लंघन कर यान चलाने पर।	रु0—5000 /—	
—तदैव	182(1)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिये निरहूं हों	रु0—10000 /—	
—तदैव	182(2)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी के परिचालन के रूप में कार्य करना, जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिये निरहूं हों	रु0—10000 /—	
—तदैव	183(1)	अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं का उल्लंघन करके मोटरयान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति, जो उसके द्वारा नियोजित हो या उसके नियंत्रणाधीन हो, के द्वारा यान चलवाने पर	हैल्के मोटर यान की दशा में रु0—2000 /— मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में रु0—4000 /—	अशमनीय
—तदैव	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 21 के साथ पठित धारा 184(ग)	यान चलाते समय हाथ से पकड़े जाने वाले संचार उपकरणों(हैण्ड डिवाइस) का उपयोग करना	रु0—1000 /—	रु0—10000 /—
—तदैव	186	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःष्करता से ग्रस्त है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाने पर	रु0—1000 /—	रु0—2000 /—

—तदैव	189	यह ज्ञान होते हुय कि वह किसी ऐसे रोग या निःष्कृतता से ग्रस्त है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक सीन में किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाने पर	रु0—5000 /—	रु0—10000 /—
—तदैव	190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सीन में ऐसा मोटर यान चलाने या चलवाने पर जो:- 1. सड़क सुरक्षा के सम्बंध में विहित मानकों का उल्लंघन करता हो यथा रेफलेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेट्रो रेफलेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानकों के अनुसार स्पीड लिमिट डिवाइस न लगा होना 2. वायु प्रदूषण के सम्बंध में विहित मानकों का उल्लंघन कारक हो	रु0—10000 /—	रु0—10000 /—
—तदैव	मोटरयान अधिनियम की धारा 39 एंव धारा 56 के साथ पठित धारा 192	(1) रजिस्ट्रीकरण के बिना या निलम्बित या रद्द कृत रजिस्ट्रीकरण के साथ मोटर यान संचालित किये जाने पर (2) वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र के बिना यान संचालित किये जाने पर। (3) यान में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विहित रिति से प्रदर्शित न करने पर। (4) अन्य मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करना।	रु0—5000 /—	रु0—10000
—तदैव	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192(क)	जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बन्धित जिस पर या ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बन्धित जिसके लिये यान चलाया जा सकता है परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।	रु0—10000 /—	रु0—10000 /—

—तदैव	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194—क	रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र अनुज्ञा पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र(में अनुमोदित से) भिन्न यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर	रु0—200 /—प्रतियात्री	
—तदैव	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 ख (1)	यान चलाते समय सुरक्षा बैल्ट का उपयोग करने में विफल रहने या सुरक्षा बैल्ट न पहनने वाले यात्रियों को ले जाने पर	रु0—1000 /—	
—तदैव	मोटरयान अधिनियम 1988की धारा 194 ख(2)	ऐसे बालेक को जो 14 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो और सुरक्षा बैल्ट या किसी बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित न किया गया हों के साथ मोटरयान चलवाने या उसकी अनुज्ञा दिये जाने पर	रु0—1000 /—	
—तदैव	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 ग	जो कोई स्वयं के अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को वहन करते हुये मोटर साईकिल चलातो है या मोटर साइकिल चलवाता है या अनुज्ञा प्रदान करता है	रु0—1000 /—	
—तदैव	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 129एंव उत्तर पद्रेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 घ	हेलमेट नहीं पहनने के उल्लंघन पर	रु0—1000 /—	
—तदैव	194 ड.	आपात यानो यथा एम्बुलैस अग्निशमन यान इत्यादि को अबाध रूप से गुजरने देने में विफल होने पर	रु0—10000 /—	

—तदैव	194 च	जो कोई मोटरयान चलाते समय :—1 सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हार्न अनावश्यक रूप से या निरन्तर या आवश्यकता से अधिक बजाता है या —2. निषिद्ध क्षेत्र में बजाता है या —3 ऐसा मोटरयान चलाता है जिसके द्वारा एकजास्ट गैस साइलंसर से भिन्न माध्यम से निर्मुक्त किये जाते हैं	रु0—1000 /—	रु0—2000 /—
—तदैव	196	गैर बीमाकृत यान चलाना या मोटरयान चलाने की अनुज्ञा देना	रु0—2000 /—	रु0—4000 /—
—तदैव	198	बिना प्राधिकार के यान में अनाधिकृत दखल देने या उसमें छोड़चाड़ करने पर	रु0—1000 /—	

### 3.3.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया:-

3.3.6.1 विदेशी पंजीकरण के संबंध में स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा कार्यवाही— उक्त सन्दर्भ में विदेशी नागरिकों के पंजीकरण (पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़कर) का कार्य एफ0आर0 आर0ओ0 कार्यालय लखनऊ द्वारा किया जाता है जबकि जनपद में एल0टी0वी0 पर निवास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा वृद्धि स्थानीय अभिसूचना इकाई कार्यालय से किया जाता है।

2.पाकिस्तानी/ बंगलादेशी नागरिकों के सम्बन्ध में एफआरआरओ का कार्य वीजा वृद्धि की कार्यवाही का विवरण:— बंगलादेशी नागरिकों के वीजा वृद्धि का कार्य एफआरआरओ कार्यालय लखनऊ द्वारा किया जाता है जबकि जनपद में एल0टी0वी0 पर निवास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा वृद्धि स्थानीय अभिसूचना इकाई कार्यालय के सस्तुति पर उ0प्र0 शासन वीजा अनुभाग द्वारा किया जाता है। 3.पासपोर्ट आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में स्थानीय अभिसूचना की कार्यवाही का विवरण:—पासपोर्ट आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में स्थानीय अभिसूचना इकाई कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पासपोर्ट आवेदन पत्रों की जाँच की जाती है।

3.3.7 सांसद/विधायक/निर्वतमान सांसद/विधायक/प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष/जिला पंचायत अध्यक्ष नगर/कुलपति/राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/जघन्य अपराध से सम्बन्धित गवाह आदि को सुरक्षा प्रदान करने हेतु गनर आदि दिये जाने की प्रक्रिया का विवरण:-

शासनादेश संख्या: 682 पीजीए/छ-पु0-2-14-700(1)/2001 दिनांक 09.5.14 द्वारा विभिन्न महानुभावों को सुरक्षा दिया जाता है।

1.आवेदको द्वारा आवेदन जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जीवनभय आख्या प्रपत्र-2 के अनुसार जनपदीय/मण्डलीय समीति शासन को उपलब्ध करायेगी। सुरक्षा हेतु आकंलन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई के प्रभारी सदस्य होंगें। आवेदक को एक माह में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तीन माह से अधिक अवधि के लिए प्रस्ताव मण्डलीय सुरक्षा समीति को भेजा जाएगा। जिसमें अध्यक्ष मण्डलायुक्त होंगे तथा सदस्य पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय होंगे। समीति द्वारा सुरक्षा कर्मियों की संख्या, सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने की अवधि, सुरक्षा का व्ययभार का उल्लेख किया जाएगा। मण्डलीय स्तर पर कुल 6 माह का सुरक्षा अवधि समाप्त होने पर जीवनभय का पुनर्मुल्यांकन किया जाएगा तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाएगी। जिसमें अध्यक्ष प्रमुख सचिव गृह, सदस्य पुलिस महानिदेषक, उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेषक सुरक्षा होंगे। गठित सीमति द्वारा समीक्षाउपरान्त सुरक्षा दिये जाने जाने पर विचार किया जाएगा।

3. भुगतान पर सुरक्षाकर्मी देने से पूर्व एक माह का व्ययभार जमा कराना होगा। अवधि समाप्त होने पर सुरक्षाकर्मी वापस लिया जाएगा। व्ययभार की दर प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से लागू होगी। ए0के047 एमपी गन व्यक्तिगत सुरक्षा में नहीं लगाई जाएगी। आवासीय गार्द, स्कोई आदि शासन स्वीकृति पर दिये जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था दिये जाने पर दुरुप्योग की सम्भावना हो तो सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

4. सांसद, मा0 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि को 01 गनर निषुल्क, औचित्य पाने पर एक अन्य गनर तथा अन्य गनर 25 प्रतिष्ठत निजी व्यय तथा चौथा गनर 75 प्रतिष्ठत निजी व्यय पर दिया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को 01 गनर शासकीय व्यय पर दिया जाएगा। विवर्तमान सांसद/विधायक औचित्य पाने पर एक सुरक्षा कर्मी 10 प्रतिष्ठत व्यय व उच्चसमीति द्वारा निर्धारित व्ययभार पर दिया जाएगा। कुलपति/राजनैतिक पार्टीयों के अध्यक्ष/जघन्य अपराध के गवाह औचित्य पाये जाने पर व्यय निर्धारण कर गनर दिये जाएंगे।

### **3.3.6.2.पासपोर्ट: —**

कार्यवाही का चरण— 1- पासपोर्ट आवेदक द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा अपना आवेदन फार्म जमा किया जाता है जिस पर आवेदन के सत्यापन हेतु पासपोर्ट सेवा केन्द्र गोरखपुर द्वारा तिथि निर्धारित कर पासपोर्ट सेवा केन्द्र पर बुलाया जाता है पासपोर्ट सेवा केन्द्र से आवेदन सही पाये जाने पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम

से पासपोर्ट कार्यालय पुलिस आफिस में आवेदक का आवेदन पत्र डाउनलोड कर हार्ड कापी निकालकर जाँच हेतु सम्बन्धित थाना पर भेजा जाता है तथा आवेदन फार्म का पार्ट बी जाँच हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। थाना एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा पार्ट बी की जाँच प्राप्त होने पर जनपद के नोडल अधिकारी पारपत्र से हस्ताक्षर कराकर आँनलाइन प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ को प्रेषित की जाती है जाँच प्रक्रिया के दौरान आवेदक का सत्यापन सही पाये जाने पर संस्तुती के साथ अग्रसारित होती है तथा गलत पाये जाने पर असंस्तुती के साथ प्रेषित की जाती है, जिसके आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ द्वारा आवेदक का पासपोर्ट निर्गत किया जाता है।

2- पासपोर्ट आवेदक के आवेदन पत्र का सत्यापन पासपोर्ट सेवा केन्द्र से करने के 21 दिवस के अन्दर जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर प्रेषित करने हेतु शासन द्वारा समयावधि निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार स्थानीय स्तर पर जाँच हेतु थाने को 05 दिवस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई को 02 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समयावधि में जाँच प्रक्रिया पूर्ण करली जाती है।

**3.3.8 शस्त्र लाइसेंस संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा के परिपत्र संख्या:298 दिनांक 14.10.98 के अनुसार क्र0सं0 कार्य किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित समय अवधि 1 जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण कार्य दिवस कार्यालय अवधि में किसी भी समय

2 संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना संबंधित प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा 15 दिवस में

3 डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना प्रभारी डीसीआरबी 03 दिवस में

4 संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना संबंधित क्षेत्राधिकारी 06 दिवस में

5 अपर पुलिस अधीक्षक नगरग्रामीण द्वारा जांच किया जाना अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण 06 दिवस में

6 जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन् स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना संबंधित कां0 द्वारा अविलम्ब शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

**3.3.9. विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-**

**3.3.9.1. प्राइवेट वेरीफिकेशन:-**

क्र०सं० कार्य किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित समय अवधि 1 आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना प्रधानलिपिक द्वारा कार्यालय अवधि में

2 चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु० शुल्क के रूप जमा कराया जाना आवेदक द्वारा रु० 20— चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक छीपीटोला में स्वयं 0055 पुलिस हैड में जमा कराया जाता है अविलम्ब

3 चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा 1 दिवस

4 संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना संबंधित थानाध्यक्ष उ०नि० द्वारा 06 दिवस

5 एल०आई०य० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना क्षेत्राधिकारी एल०आई०य० द्वारा 06 दिवस

6 चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा 01 दिवस में।

### 3.3.9.2. पुलिस वेरीफिकेशनः—

क्र०सं० कार्य किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित समय अवधि—

पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना प्रधानलिपिक द्वारा कार्यालय अवधि में

1. चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा अविलम्ब

2. संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना संबंधित थानाध्यक्ष उ०नि० द्वारा 03 दिवस

3. एल०आई०य० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना क्षेत्राधिकारी एल०आई०य० द्वारा 03 दिवस में

4. चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अविलम्ब

### 5. 3.3.9.3. सर्विस वेरीफिकेशनः—

क्र०सं० कार्य किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित समय अवधि— 1 सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना प्रधान लिपिक द्वारा कार्यालय अवधि में

2 चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा अविलम्ब

3. संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना संबंधित थानाध्यक्ष उ०नि० द्वारा 03 दिवस

4. एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा 03 दिवस 4. चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अविलम्ब

### **3.3.9.4. मिलटी सर्विस वेरीफिकेशनः—**

क्र0सं0 कार्य किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित समय अवधि

1 मिलटी विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना प्रधानलिपिक द्वारा कार्यालय अवधि में

2 चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा तत्काल

3 संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना संबंधित थानाध्यक्ष उ0नि0 द्वारा 03 दिवस

4 एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा 03 दिवस

5. चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अविलम्ब

### **3.3.9.5. ठेकेदारी वेरीफिकेशनः—**

क्र0सं0 कार्य किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित समय अवधि—

1 जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त प्रधानलिपिक द्वारा कार्यालय अवधि में

2 चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित रु0 20— शुल्क के रूप में जमा कराया जाना आवेदक द्वारा रु0 20— चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में स्वयं 0055 पुलिस हैड में जमा कराया जाता है अविलम्ब

3. चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा अविलम्ब

4. संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना संबंधित थानाध्यक्ष उ0नि0 द्वारा 07 दिवस

5. संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुतिध्वंससंस्तुति करना संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 07 दिवस में

6. एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा 07 दिवस

7. चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अविलम्ब

### **4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्डः—**

4.1. जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्डः— क्र0सं0 कार्य कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड—

- 1 अनुसंधान विवेचना दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि
2. थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना 07 दिवस
- 3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना 15 दिवस
- 4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना 12 दिवस
- 5 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण 15 दिवस
- 6 पासपोर्ट की जाँच उ0प्र0 शासन के पत्र सं 616 छ: वीजा अनुभाग—2005—726499 दिनांक 21—10—2005 के अनुसार 20 दिवस में
- 7 शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना 30 दिवस
- 8 प्राइवेट वेरीफिकेशन 14 दिवस
- 9 पुलिस वेरीफिकेशन 06 दिवस
- 10 सर्विस वेरीफिकेशन 06 दिवस
- 11 मिलीटी सर्विस वेरीफिकेशन 06 दिवस
- 12 ठेकेदारी वेरीफिकेशन 21 दिवस

#### **4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्तः—**

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोक ना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।

10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

**5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेखः—** क्र०सं० अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नामः—

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
- 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6 साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7 आर्म्स एक्ट 1959
- 8 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
- 9 अनुजाति व अनुजनजाति अधिनियम 1989
- 10 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949
- 11 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955/4उ०प्र०सं०शोधन अधिनियम 19781
- 12 चोर बाजारी नियम 1980 और आवश्यक वस्तु प्रदय अधिनियम 1980
- 13 खादय अपमिश्रण नियम 1954
- 14 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
- 15 पशु अत्याचार अधिनियम 1861
- 16 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 17 बन्दी अधिनियम 1900
- 18 सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867
- 19 किशोर न्याय अधिनियम 1986
- 20 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- 21 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
- 22 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
- 24 बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930

- 25 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980  
26 विस्फोटक अधिनियम 1884  
27 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908  
28 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984  
29 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958  
30 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956  
31 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेघ अधिनियम 1986  
32 भारतीय वन अधिनियम 1927  
33 वन संरक्षण अधिनियम 1980  
34 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004  
35 बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955  
36 विष अधिनियम 1919  
37 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993  
38 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994  
39 रेल अधिनियम 1989  
40 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957  
41 रेल सम्पत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966  
42 पुलिस बल अधिकारों पर निर्बन्धन अधिनियम 1966  
43 पुलिस द्रोह उद्ठीपन अधिनियम 1922  
44 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों कानूनों का विस्तार अधिनियम 1952  
45 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995  
46 ब्याज अधिनियम 1978  
47 उ0 प्र0 गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986  
48 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970  
49 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999  
50 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970  
51 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976  
52 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948  
53 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983  
54 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979  
55 उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944  
56 उ0प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी दण्ड एवं अपील 1991  
57 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999  
58 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955  
59 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964  
60 उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964

61 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994

62 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

63 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

64 वित्तीय हस्त पुस्तिका

65 समय—समय पर निर्गत शासनादेश

66 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश इसके अतिरिक्त तत समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

#### **6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी:-**

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख— क्र0 सं0 अभिलेख की प्रति उपलब्ध सूचना का विवरण इकाई शाखा जहाँ उपलब्ध होगी अवधि जब तक उपलब्ध होगी

1 प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराधों के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में सभी पुलिस थानों पर तीन साल

2 दैनिकी सामान्य सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधि0 कर्मचारीगण की रवानगी वापसी डयूटी का विवरण सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में

3 सभी स्टैण्डिंग आर्डर पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि0 कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण सभी शाखा व थानों पर स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधि0के आदेश पर ही नष्ट होगी

4 भगोड़ा मफरूर रजिस्टर सभी फरार अपराधियों का विवरण सभी थानों पर स्थायी 5 रोकड़ बही धनराशि की आमद व खर्च का विवरण सभी थाने लाइन में पुलिस एक वर्ष

5. थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में

6 आरोप पत्र अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट सभी पुलिस थाने पर एक साल

7 चिक खुराक अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है सभी थाने पर तीन साल

8. 356 द0प्र0सं0 के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण, जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो

9. 432 द0प्र0सं0 के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर,

10 गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट थानाक्षेत्र की साम्रादायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना—एक साल

11 अपराध रजिस्टर थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण सभी थाने पर पांच साल 12 चौकीदारों का चौकीदारके ग्राम में घटित सूची चौकीदारों के चौकीदार को जब तक अपराध नोट बुक घटनाओं का विवरण पास नई नोट बुक प्रदान न की जाए

- 13 ग्राम अपराध रजिस्टर रजिस्टर न0 8 उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण सभी थानों पर स्थायी रूप में
- 14 डिफाल्टर रजिस्टर कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का अल्लेख सभी थानों पुलिस लाइन में एक साल पूर्ण होने के बाद
- 15 केस डायरी विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण सभी थानों विवेचकों के पास पांच साल 16 अन्तिम रिपोर्ट अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट सभी थाने पर एक साल
- 17 अगुष्ठ छाप रजिस्टर अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है। सभी थाने पर स्थायी रूप में
- 18 चिक गैरदस्तन्दाजी अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक तीन साल
- 19 गिरोह रजिस्टर पंजीकृत गैगो का विवरण सभी थाने पर व डीसीआरबी में पूर्ण होने के पांच साल तक
- 20 मरम्मत रजिस्टर मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण सभी थानों पर दो साल
- 21 जांचोपरान्त 'अ' थानाक्षेत्र के दुर चारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र „ तीन साल
- 22 जांच पर्ची 'ब' थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र 23 सूची हिस्टीशीट दुर चारियों का विवरण स्थायी रूप से
- 24 पंचायतनामा जिल्द अस्वाभाविक विवरण मृत्यु की जांच का सभी थानों पर एक साल
- 25 निरीक्षण पुस्तिका निरीक्षण का विवरण सभी थानों पर व शाखाओं में पांच साल
- 26 माल मसरुका रजिस्टर चोरी लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण सभी थानों पर पांच साल
- 27 रिमाण्डशीट पु0 प्रपत्र अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र सभी थानों पर एक साल
- 28 मजिस्टेंटो के लिए निरीक्षण पुस्तिका मजिस्टेंटो के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख सभी थाने पर पूर्णता से 5 साल तक
29. 109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु „ दो वर्ष
30. 110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु „ „
31. थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें „ स्थाई
- 32 परिपत्र सूचनाओं की फाइल समस्त परिपत्र सभी कार्यालयों में किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
33. परिपत्र अनुदेशों की फाइल परिपत्रों संबंधी निर्देश

- 34 अपराधी जनजातियों अपराधियों जनजातियों के समस्त थानों पर उनके मृत्यु तक का रजिस्टर संबंध में
- 35 सक्रिय अपराधी रजिस्टर क्षेत्राधिकारी द्वार अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची „ निगरानी उचित समझे जाने तक
- 36 आर्डर बुक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्रों की सूची „ 5 वर्षों तक
- 37 आर्डर बुक न्यायालय कोर्ट प्रोसीजर की सूची „ 5 वर्षों तक
- 38 आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची „ 5 वर्षों तक
- 39 भवन रजिस्टर थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में। „ स्थायी
- 40 गुमशुदगी रजिस्टर गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध मे। „ स्थायी
- 41 गिरफ्तारी रजिस्टर गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना 5 वर्षों तक
- 42 जमानत रजिस्टर दी जाने वाली जमानतों का विवरण 5 वर्षों तक
- 43 काज लिस्ट रजिस्टर न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण 5 वर्षों तक
- 44 जनशिकायत रजिस्टर थाना कार्यालय अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र समस्त थानोंधकार्यालय में 2 वर्षों तक
45. किरायेदार सत्यापन रजिस्टर क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में समस्त थानों पर स्थायी
- 46 नियुक्ति रजिस्टर थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में स्थायी
47. अवकाश रजिस्टर आकस्मिक अवकाशों का विवरण समस्त कार्यालयों। में 1 वर्ष तक

## **6.2. क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—**

- क्र0 सं0 अभिलेख की प्रकृति उपलब्ध सूचना का विवरण इकाईधाखा जहाँ उपलब्ध होगी अवधि जब तक उपलब्ध होगी
- 1 अपराध रजिस्टर सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण क्षेत्राधिकारी कार्यालय में 05 वर्ष तक
  - 2 जेड रजिस्टर केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनाँक सहित संक्षिप्त विवरण क्षेत्राधिकारी कार्यालय में स्थायी
  - 3 आर्डर बुक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्रों की सूची क्षेत्राधिकारी कार्यालय में 05 वर्ष तक
  - 4 परिपत्र सूचनाओं की फाइल समस्त परिपत्र क्षेत्राधिकारी कार्यालय में अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
  - 5 आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची क्षेत्राधिकारी कार्यालय में 05 वर्ष तक
  - 6 अवकाश रजिस्टर आकस्मिक अवकाशों का विवरण क्षेत्राधिकारी कार्यालय में 01 वर्ष तक

7 विशेष् अपराध पत्रावलियाँ विशेष अपराधों का विवरण क्षेत्राधिकारी कार्यालय में स्थायी

8 जाँच पत्रावलियाँ शिकायतों की जाँच के संबंध में क्षेत्राधिकारी कार्यालय में 05 वर्ष तक

### **6.3. अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—**

क्र०सं० अभिलेख की प्रकृति उपलब्ध सूचना का विवरण इकाई शाखा जहाँ उपलब्ध होगी अवधि जब तक उपलब्ध होगी

1 आर्डर बुक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्रों की सूची अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 05 वर्ष तक

2 परिपत्र सूचनाओं की फाइल समस्त परिपत्र अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक

3 आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 05 वर्ष तक

4 अवकाश रजिस्टर आकस्मिक अवकाशों का विवरण अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 01 वर्ष तक

5 नियुक्ति रजिस्टर क्षेत्र, के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थायी

6 जाँच पत्रावलियाँ शिकायतों की जाँच के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 05 वर्ष तक

### **6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—**

क्र०सं० अभिलेख की प्रकृति उपलब्ध सूचना का विवरण इकाई शाखा जहाँ उपलब्ध होगी अवधि जब तक उपलब्ध होगी

1 राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थायी

2 हिस्टीशीट इन्डेक्स जनपद के दुराचारियों का विवरण वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थायी

3 पुरस्कार रजिस्टर जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 05 वर्ष तक

4 आर्डर बुक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्रों की सूची शिकायत प्रक्रोष्ट कार्यालय में 05 वर्ष तक

5 परिपत्र सूचनाओं की फाइल समस्त परिपत्र प्रधान लिपिक कार्यालय अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक

6 आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 05 वर्ष तक

7 अवकाश रजिस्टर आकस्मिक अवकाशों का विवरण वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 01 वर्ष तक

- 8 नियुक्ति रजिस्टर क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थायी
- 9 सर्विस बुक चरित्र पंजिका समस्त रैंकों के कर्मचारियों। के सेवा इतिहास प्रधान लिपिक कार्यालय स्थायी
- 10 कैश बुक पे-बिल रजिस्टर समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में आंकिक शाखा स्थायी
- 11 आकस्मिकता निधि रजिस्टर आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में आंकिक शाखा स्थायी
- 12 स्टाक रजिस्टर सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण पुलिस लाइन स्थायी
- 13 हिन्दी आदेश पुस्तिका समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है पुलिस लाइन 40 वर्षों तक

#### **7. जनता की परामर्शदात्री समितियां:-**

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है— क्र. सं. समिति का नाम समिति का गठन भूमिका एवं दायित्व गोष्ठियों की आवृत्ति—

- 1 ग्राम सुरक्षा समिति प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना समय—समय पर
- 2 पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना त्रैमासिक
- 3 उद्योग बन्धु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु त्रैमासिक
- 4 जिला सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति दुर्घटनाओं के निवारण हेतु त्रैमासिक
- 5 जिला स्तरीय पत्रकार समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु त्रैमासिक
- 6 शांति समिति क्षेत्र के सम्ब्रान्त नागरिकों की समिति सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार
- 7 मेला समिति मेले से संबंधित सम्ब्रान्त व्यक्तियों की समिति प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु मेले के आयोजन से पूर्व

8 सांसद विधायकगण की गोष्ठी समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी शिकायतों के निस्तारण व सुझाव परामर्श के लिये मासिक

8. **बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायः—** पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

**10. जनपद गोरखपुर के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन सी0यू0जी0 नम्बरः—**

क्र0सं0 पदनाम निवास का टेलीफोन नम्बर, कार्यालय का टेलीफोन नम्बर, मोबाइल न0 व्यक्तिगत, सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर

1 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर— 0551—2200773, 0551—2200858, — 9454400273

2 पुलिस अधीक्षक यातायात, गोरखपुर — 9454403528,

3 पुलिस अधीक्षक नगर, गोरखपुर— 9454401054

4 अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, गोरखपुर— 0551—2202381, 2202382, 9454400452

5 अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी, गोरखपुर— 0551—2204335, 9454401055,

6 अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध, गोरखपुर— 0551— 2202793, 9454457895

7 पुलिस अधीक्षक, लाईन / आफिस गोरखपुर— 9650985933

8 सहा0 पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी लाइन्स गोरखपुर— 945401417

9. क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर— 9454401411

10. क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, गोरखपुर— 9454401413

11. क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगज—9454401417

12. क्षेत्राधिकारी चोरीचौरा— 9454401416

13. क्षेत्राधिकारी बॉसगाँव, गोरखपुर—9454401414

14.क्षेत्राधिकारी खजनी, गोरखपुर— 9454401415

15. क्षेत्राधिकारी गोला, गोरखपुर—9454405210

16. क्षेत्राधिकारी यातायात, गोरखपुर— 9454403529

17. पुलिस उपाधीक्षक, प्रज्ञान— 9454401726

18. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर— 9454418341

19. अपर राज्य रेडियो अधिकारी गोरखपुर—9454404753

20. रेडियो निरीक्षक, गोरखपुर—7839855747

21. प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन गोरखपुर— 9454402362

22. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली 9454403517

23. प्रभारी निरीक्षक राजघाट 9454403521

24. प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर— 9454403525

25. प्रभारी निरीक्षक कैन्ट— 9454403506

26 प्रभारी निरीक्षक खारोबार— 9454403516

27. प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ— 9454403511
28. थानाध्यक्ष शाहपुर— 9454403523
29. प्रभारी निरीक्षक महिला थाना— 9454403518
30. थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज— 9454403505
31. थानाध्यक्ष पीपी गंज— 9454403520
32. प्रभारी निरीक्षक सहजनवा— 9454403522
33. प्रभारी निरीक्षक — 9454403508
34. प्रभारी निरीक्षक — 9454403507
35. थानाध्यक्ष झगहा— 9454403514
36. प्रभारी निरीक्षक — 9454403519
37. प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा— 9454403512
38. प्रभारी निरीक्षक बॉसगाँव— 9454403502
39. थानाध्यक्ष बेलीपार— 9454403503
40. थानाध्यक्ष गगहा— 9454403509
41. प्रभारी निरीक्षक खजनी— 9454403515
42. थानाध्यक्ष सिकरीगंज— 9454403524
43. थानाध्यक्ष हरपुरबुदहट— 9454403513
44. प्रभारी निरीक्षक गोला— 9454403510
45. प्रभारी निरीक्षक बडहलगंज— 3501
46. थानाध्यक्ष उरुवा— 94544403526
47. थानाध्यक्ष बेलधाट— 9454403504
48. प्रभारी निरीक्षक गीडा— 9454402442
49. प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल— 9454403529

वर्ष 2022–23 वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान एवं व्यय का विवरण जनपद गोरखपुर—

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2020–21 में अब तक प्राप्त कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	शेष	सर्वपित धनराशि
1	2	3	4	5
जिला पुलिस मुख्य के लेखाशीर्षक 2055001090300				

01—वेतन	1884740000	1891608094	-6868094	-6868094
03—महगाई भत्ता	677034000	678255621	-1221621	-1221621
06—अन्य भत्ता	131384000	108497626	22886374	22886374

55—मकान किराया भत्ता	64049000	102820206	-14771206	14771206
योग ग्रुप—01—	2781207000	2781181547	25453	25453
04—यात्रा भत्ता	17765000	18418251	-653251	-653251
05—स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1005000	447220	557780	557780
45—अवकाश यात्रा सुविधा	100000	0	100000	100000
04,05 व 45 योग—ग्रुप—02	18870000	18865471	4529	4529
08—कार्यालय व्यय	2456859	2481176	-24307	-24307
11—लेखन सामग्री	954000	1836219	-882219	-882219
42—अन्य व्यय	104541500	100454138	4087362	4087362
51—वर्दी व्यय	1500000	616311	883689	883689
योग—ग्रुप—03	109452369	105387844	4064525	4064525
10—जलकल	262000	262000	0	0
17 किराया उपषुल्क	327000	327000	0	0
योग—ग्रुप—04	589000	589000	0	0
02—मजदूरी	518000	5516600	1400	1400
12—फर्नीचर पर व्यय / उपकरण	522000	522519	-519	-519
12—फर्नीचर / उपकरण ए0एन0टी थाना	900000	899481	519	519
योग—	1422000	1422000	0	0
23—गुप्त सेवा व्यय	106000	106000	0	0
16—व्यवसायिक सेवाएं	163300	160000	3300	3300
25—लघु निर्माणकार्य	1881290	1881290	0	0
29 अनुरक्षण	20692000	20690347	1653	1653
29—भवन अनुरक्षण (एडीजी जोन) आवासीय परिसर की रंगाई पुताई, बाहरी दीवारों की मरम्मद	1897000	1897000	0	0
योग—29 अनुरक्षण	22589000	22587347	1653	1653
58—आउट सोर्सिंग सर्विस	1900000	1899326	674	674
42—अन्य व्यय—एसएएफ 2055001130300	457000	456854	146	146
42—अन्य व्यय कल्याण	687000	686934	66	66
42—अन्य व्यय—डिजिटाईजेषन—1090018	814500	0	814500	814500
42—अन्य व्यय मानवाधिकार श्री रमेष नायक	100000	0	100000	100000

42—अन्य व्यय मानवाधिकार श्री सुभम गौड	200000	0	200000	200000
42—अन्य व्यय मानवाधिकार मृतक जितेन्द्र यादव के परिवारजन	300000	300000	0	0
42—अन्य व्यय लावरिष शब	289300	281800	7500	7500
42—अन्य व्यय विधान सभा निर्वाचन लम्बित बिल	632000	6275820	4418	4418
44—प्रषिक्षण हेतु यात्राएवं अन्य प्रासंगिक व्यय	271875	271799	76	76
49—चिकित्सा व्यय	40301000	40300028	972	972
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर	289000	289000	0	0
कम्प्यूटर अनु० एवं स्टेषनरी	730583	728959	1624	1624
लेखाषीषक 2055 00109 0500				
15—पेट्रोल / डीजल	62760000	60738482	2021518	2021518
लेखाषीषक 2055001100300				
08—कार्यालय व्यय	1021000	1020315	685	685
लेखाषीषक 2055 00109 07 00				
02—मजदूरी	1630000	1626889	3111	3111
02—मजदूरी थाना एनटी करप्सन	20000	19695	305	305
योग—02	1650000	1646584	3416	3416
08—कार्यालय व्यय	3306000	3306000	0	0
08—कार्यालय व्य एनटी करप्सन	100000	100000	0	0
08—कार्यालय व्यय—गोरखनाथ एवं एम्स	2139000	2138182	818	818
योग—08	5545000	5544182	818	818
11—लेखन सामग्री	1259000	1258944	56	56
11—लेखन सामग्री एनटी करप्सन	20000	19980	20	20
				76
योग—11	1279000	1278924	76	
12—फर्नीचर / उपकरण	659000	958995	5	5
12—फर्नीचर / उपकरण थाना एनटी करप्सन	100000	98483	1517	1517
12—फर्नीचर / उपकरण—गो० एवं एम्स	3674000	3673994	6	6
12—फर्नीचर / उपकरण—गो० एवं	200000	200000	0	0

एम्स				
योग—12	4633000	4631472	1528	1528
13—टेलीफोन पर व्यय एण्टी करप्सन	25000	13314	11686	11686
15—पेट्रोल / डीजल	10247000	10213069	33931	33931
23—गुप्त सेवा व्यय	194000	194000	0	0
29—भवन अनुरक्षण थाना	3259800	3259659	141	141
29—भवन अनुरक्षण थाना एनटी करप्सन	100000	99863	137	137
योग—27	3359800	3359522	278	278

**सीसीटीएनएस लेखाशीर्षक—2055001090700**

42—अन्य व्यय पुलिस विभाग में कनेक्टिविटी हेतु (सीसीटीएनएस)	615700	615647	53	53
42—अन्य व्यय पुलिस विभाग में कनेक्टिविटी हेतु (एनटीएफ)	12175	12175	0	0
42—अन्य व्यय	2271000	2270990	10	10
42—अन्य व्यय थाना एन्टी करप्सन	200000	198747	1253	1253
योग—42	2471000	2469737	1263	1263
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ0	1909000	1908973	27	27
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ0 एण्टी करप्सन	480000	479833	167	167
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ0—थाना गोरखनाथ एवं एम्स	300000	299446	554	554
योग—46	2689000	2688252	748	748
47—कम्प्यूटर अनु0 एवं तत्सम्बन्धित स्टेबनरी का क्य	3750000	3750052	-52	-52
47—कम्प्यूटर अनु0 थाना एनटी करप्सन	100000	99941	59	59
योग—47	3850000	3849993	7	7
58—आउट सोर्विंग	172000	171509	491	191

**आउट सोर्विंग पुलिस लाईन अस्पताल लेखाशीर्षक—2055001130401**

08—कार्यालय व्यय	12000	12000	0	0
11—लेखन सामग्री	10000	10000	0	0
12—फर्नीचर / उपकरण	7000	7000	0	0
39—औषधी तथा रसायन	22000	22000	0	0

40—औषधालय सम्बन्धित				
साज—सज्जा	12000	11888	112	112
42—अन्य व्यय	8500	8499	1	1
43—सामग्री एवं सम्पूर्ति	75000	74997	3	3
58—आउट सोर्विंग	9000	8652	348	348
कार्डम ब्रान्च लेखाषीष्क—2055001090900				
02—मजदूरी	9000	8652	348	348
11—लेखन सामग्री	9000	8996	4	4
12—फर्नीचर एवं उपकरण	300000	299676	324	324
16—व्यवसायिक सेवायें	4000	0	4000	4000
29—अनुरक्षण	2000	1924	76	76
42—अन्य व्यय	4000	4000	0	0
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर	4000	3980	20	20
46—कम्प्यूटर अनु० / स्टेषनरी	2000	2000	0	0
58—आउट सोर्विंग	2000	1799	201	201
26—मणीन साज—सज्जा एवं उपकरण	1000000	0	1000000	1000000
लेखाषीष्क—2055000010300				
15—पेट्रोल / डीजल	320000	319941	59	59

**15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें—** जनपद मुख्यालय स्तर पर एक जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके द्वारा निम्नानुसार कार्य सम्पादित किया जाता है।

क्र०सं० कार्य कार्यवाही किसके स्तर से समयावधि—

1 सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक नगर, पु०अ०अधीक्षक ग्रामीण, संबंधित क्षेत्राधिकारी यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी कार्यालय प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक राजकीय अवकाशों का छोड़कर

2 सूचना निरीक्षण करने का स्थान उपरोक्त

3 सूचना प्रदान किये जाने का स्थान उपरोक्त विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वत्रंता के संबंध में 48 घण्टे

4 सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि 10 रु० प्रथम घण्टा, निशुल्क, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु० प्रति 15 मिनट पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को डांफट या बैंकर्स चेक उपरोक्त

5 सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण 10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क उपरोक्त समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना 25000 रु0 अधिक न हो भी देय होगा।

#### 16. लोक जनसूचना अधिकारियों के नाम व पदनामः—

जनपद गोरखपुर पुलिस में, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लोक/जनसूचना प्रकोष्ठ जनपद गोरखपुर में बनाया गया है। जिनके द्वारा नोडल अधिकारी जनसूचना एवं सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्त निम्नानुसार की गयी है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर नामित हैं।

#### क्र0 सं0 नोडल जनसूचना अधिकारी का नाम व पद लिंक जन सूचना अधिकारी का नाम—

1. श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, गोरखपुर।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार उपरोक्त के अतिरिक्त सूचना अधिकार अधिनियम 05 के अन्तर्गत उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए निम्नानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

क्र. स. सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद मो0नं0

1. पुलिस अधीक्षक, नगर गोरखपुर—9454401054,
2. क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर— 9454401411
3. क्षेत्राधिकारी कैन्ट गोरखपुर— 9454401412
4. क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, गोरखपुर— 9454401413
5. पुलिस अधीक्षक उत्तरी, गोरखपुर— 9454400452
6. क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगज—9454401417
7. क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा— 9454401416
8. पुलिस अधीक्षक, दक्षिण, गोरखपुर—9454401055
9. क्षेत्राधिकारी बॉसगावँ, गोरखपुर—9454401414
10. क्षेत्राधिकारी खजनी, गोरखपुर— 9454401415
11. क्षेत्राधिकारी गोला, गोरखपुर—9454405210
12. पुलिस अधीक्षक, अपराध गोरखपुर— 9454457895
13. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय / लाईन—9650985933
14. क्षेत्राधिकारी यातायात, गोरखपुर— 9454403529
15. पुलिस उपाधीक्षक, प्रज्ञान— 9454401726
16. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर— 9454418341

जनपद गोरखपुर।